



Helpline Number for corona-virus

Rajasthan
0141-
2225624/2225000
Toll Free No:
104/108

National Call Center
No
+91-11-23978046
Toll Free No: 1075

Whatsapp Chatbot
+911412225624

Helpline Email ID
for corona-virus :
rajasthan_idsp[at]
yahoo[dot]co[dot]in

COVID Facilities in
Rajasthan
(27.06.2020)

Frequently Asked
Questions on
(FAQs)

Mobile Application
RSMP



RSMP मोबाईल एप डाउनलोड
करने के लिए Q.R.Code Scan
करें।



Rajasthan Teleconsultation
Services

[Click Here for Main Website](#)

Novel Corona Virus (COVID-19)

Home	Travel Advisories	Behavioural Health	Citizens	Hospitals	States/Departments/ Ministries	Employees	Awareness Material
------	-------------------	--------------------	----------	-----------	--------------------------------	-----------	--------------------

1403124
Total Sample
Collected

1361480
Negative
Cases

36430
Positive
Cases

25954
Cured /
Recovered

5214
Report
Awaited

624
Cumulative
Death




श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान



डॉ. रघु शर्मा
माननीय चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य मंत्री,
राजस्थान



डॉ. सुरेश गर्ग
माननीय चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य राज्य मंत्री,
राजस्थान



District Wise Status of COVID-19 Date-26.7.2020 (Time 08:30 P.M)

S.No	District	Total Sample Received	Today's Positive	Cumulative Positive	Cumulative Recovered	Cumulative Discharged
1	AJMER	45938	36	1517	888	888
2	ALWAR	43460	150	2914	1232	270
3	BANSWARA	10637	0	138	110	103
4	BARAN	11479	11	113	74	74
5	BARMER	32211	28	1195	667	667
6	BHARATPUR	37083	49	2380	2000	2000
7	BHILWARA	49985	0	485	311	309
8	BIKANER	61666	82	1778	1041	1041
9	BUNDI	8659	29	91	31	31
10	CHITTORGARH	15076	5	233	210	205
11	CHURU	18722	36	599	458	458
12	DAUSA	15542	6	285	250	250
13	DHOLPUR	30926	37	1135	949	949
14	DUNGARPUR	40584	6	565	509	481
15	GANGANAGAR	12370	5	144	76	76
16	HANUMANGARH	14975	3	190	125	125
17	JAIPUR	166851	71	4874	3591	3591

18	JAISALMER	26296	5	164	127	123
19	JALORE	51507	11	1044	892	892
20	JHALAWAR	39728	50	491	406	406
21	JHUNJHUNU	21216	14	542	504	504
22	JODHPUR	232958	239	6066	4217	4212
23	KARAULI	9781	23	301	160	160
24	KOTA	92803	68	1331	869	858
25	NAGOUR	38539	49	1279	988	988
26	PALI	63577	45	2369	1836	1836
27	PRATAPGARH	12564	2	168	149	147
28	RAJSAMAND	19725	7	522	429	411
29	S.MADHOPUR	13746	9	182	127	127
30	SIKAR	53085	20	865	724	724
31	SIROHI	31873	0	791	705	705
32	TONK	17360	2	254	220	220
33	UDAIPUR	56908	33	1120	923	865
Other State/country		5294	1	183	41	41
Total		1403124	1132	36308	25839	24737
Other (Italy)		0	2	2	2	2
Evacuees		0	61	61	61	61
BSF		0	59	52	52	52
G Total		1132	36430	25954	24852	

COVID Facilities in Rajasthan

LATEST UPDATES

प्रेस-विज्ञप्ति
(Only for Private Sector)

- (Only for Private Sector) Details of Manpower willing to work for COVID-19 patient
- (Only for Private Sector) Details of hospital voluntarily agreeing to provide services for the treatment of COVID-19 patient

कोरोना वायरस (Corona Virus Important Letter for Department)

State Officials/incharge for COVID 19

District Officials/ incharge for 19Corona

MoHFW Website

The posters include the following key messages:

- COVID-19 संक्रमण से बचें:**
 - शराब पीने से COVID-19 के संक्रमण से बचाने में मदद करता है।
 - शराब पीने से COVID-19 के संक्रमण से बचना नहीं होता है।
 - नया कोरोना वायरस कुत्तों या बच्चों को स्पर्शित करना है, चुनना नहीं है।
 - सभी उम्र के लोग इस वायरस (nCoV-2019) से संक्रमित हो सकते हैं।
 - विटामिन-सी के भण्डार सेवन से कोरोना संक्रमण को ठीक करने में मदद मिल सकती है।
 - विटामिन-सी के निर्यात सेवन से प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दया प्रियता गलत है।**
 - ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
 - कम्प्लायन अर्थात् 5 दिनों तक है।
 - "कम्प्लायन अर्थात्" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कम्प्लायन अर्थात् 1-14 दिनों तक का है।
 - एक चीनी चिबिसक के मुताबिक कोरोनावायरस - का इलाज है एक कटोरी लहसुन।
 - ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
- सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दया प्रियता गलत है।**
 - ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
 - कम्प्लायन अर्थात् 5 दिनों तक है।
 - "कम्प्लायन अर्थात्" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कम्प्लायन अर्थात् 1-14 दिनों तक का है।
 - एक चीनी चिबिसक के मुताबिक कोरोनावायरस - का इलाज है एक कटोरी लहसुन।
 - ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
- सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दया प्रियता गलत है।**
 - ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
 - कम्प्लायन अर्थात् 5 दिनों तक है।
 - "कम्प्लायन अर्थात्" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कम्प्लायन अर्थात् 1-14 दिनों तक का है।
 - एक चीनी चिबिसक के मुताबिक कोरोनावायरस - का इलाज है एक कटोरी लहसुन।
 - ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
- सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दया प्रियता गलत है।**
 - ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
 - कम्प्लायन अर्थात् 5 दिनों तक है।
 - "कम्प्लायन अर्थात्" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कम्प्लायन अर्थात् 1-14 दिनों तक का है।
 - एक चीनी चिबिसक के मुताबिक कोरोनावायरस - का इलाज है एक कटोरी लहसुन।
 - ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
- सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दया प्रियता गलत है।**
 - ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
 - कम्प्लायन अर्थात् 5 दिनों तक है।
 - "कम्प्लायन अर्थात्" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कम्प्लायन अर्थात् 1-14 दिनों तक का है।
 - एक चीनी चिबिसक के मुताबिक कोरोनावायरस - का इलाज है एक कटोरी लहसुन।
 - ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
- सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दया प्रियता गलत है।**
 - ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
 - कम्प्लायन अर्थात् 5 दिनों तक है।
 - "कम्प्लायन अर्थात्" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कम्प्लायन अर्थात् 1-14 दिनों तक का है।
 - एक चीनी चिबिसक के मुताबिक कोरोनावायरस - का इलाज है एक कटोरी लहसुन।
 - ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
- सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दया प्रियता गलत है।**
 - ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
 - कम्प्लायन अर्थात् 5 दिनों तक है।
 - "कम्प्लायन अर्थात्" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कम्प्लायन अर्थात् 1-14 दिनों तक का है।
 - एक चीनी चिबिसक के मुताबिक कोरोनावायरस - का इलाज है एक कटोरी लहसुन।
 - ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
- सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दया प्रियता गलत है।**
 - ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
 - कम्प्लायन अर्थात् 5 दिनों तक है।
 - "कम्प्लायन अर्थात्" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कम्प्लायन अर्थात् 1-14 दिनों तक का है।
 - एक चीनी चिबिसक के मुताबिक कोरोनावायरस - का इलाज है एक कटोरी लहसुन।
 - ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
- सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दया प्रियता गलत है।**
 - ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
 - कम्प्लायन अर्थात् 5 दिनों तक है।
 - "कम्प्लायन अर्थात्" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कम्प्लायन अर्थात् 1-14 दिनों तक का है।
 - एक चीनी चिबिसक के मुताबिक कोरोनावायरस - का इलाज है एक कटोरी लहसुन।
 - ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
- सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दया प्रियता गलत है।**
 - ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।
 - कम्प्लायन अर्थात् 5 दिनों तक है।
 - "कम्प्लायन अर्थात्" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कम्प्लायन अर्थात् 1-14 दिनों तक का है।
 - एक चीनी चिबिसक के मुताबिक कोरोनावायरस - का इलाज है एक कटोरी लहसुन।
 - ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

अपनी नियमित दवाइयां लेते रहें

दवाइयां खाने या न मिलने की स्थिति में दूर जानकर पर सहायता लें

0141-2228600

COVID-19 को रोकने में सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

समय है, खुद को संक्रमण से बचाने का समय रखना ही सर्वोत्तम दवा है

- अव्यक्तता का उचित ध्यान रखें
- सबसे अधिक सतर्कता को बनाए रखें
- सबसे अधिक सतर्कता को बनाए रखें
- सबसे अधिक सतर्कता को बनाए रखें
- सबसे अधिक सतर्कता को बनाए रखें
- सबसे अधिक सतर्कता को बनाए रखें
- सबसे अधिक सतर्कता को बनाए रखें
- सबसे अधिक सतर्कता को बनाए रखें

COVID-19 को रोकने में सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

दिल दिया है जा भी दंगे ए वतन तरे लिए

आशा कार्यकर्ता मास्क बनाते हुए संकट काटने में आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे

ASHA workers make masks at home amid Covid battle

आइए, हम सब भी किसी ना किसी रूप में अपना योगदान दें, इस महामारी से निपटने में

COVID-19 को रोकने में सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

आप घर पर फंसे हुए नहीं हैं आप घर पर सुरक्षित हैं

सोच रखें सकारात्मक

COVID-19 को रोकने में सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

हमेशा एक मीटर की दूरी बनाए

खुद बचिए औरों को भी बचाइए

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

घर पर पहुंचकर रहें सामग्री, भेज रहे रिश्तेदार। इन घर से बाहर निकलकर जा करें, इसकी शैल्यत वैसा।

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

ये बहुत जरूरी है कि आप बात करते या मिलते समय कम से कम एक मीटर की दूरी रखें

Practice SAFE SOCIAL DISTANCING

COVID-19 को रोकने में सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

Covid-19 संश्लेषित पर सतर्कता बरतें

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

दूसरों की मदद भी सावधानी और सतर्कता से करनी है

NO CROWD NO SOCIAL GATHERING KITCHEN

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

घर पर रहें सुरक्षित रहें!

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

शराबपान सतर्क है

वेंटिलेटर से बेहतर है मास्क

आईसीयू से बेहतर है घर

इलाज से बेहतर है रोकथाम

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

गलत संदेशों से बचें, सही तथ्य जानें

जागरूक बनें, औरों को भी बनायें

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

मेडिकल मास्क का उपयोग

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

सही है, वही रहे सतर्कता, रखा अधिक होनी। घर जाने की दूर में, चली जा सक जाओ ठीकी।

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

जो सच में कुछ नहीं सुनाएगा सच में वही कोरोना से बच जाएगा

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

बात काम की है, समझो जरा

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

मैं एक कोरोना पॉजिटिव के सम्पर्क में आया हूँ मुझे क्या करना चाहिए?

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

कोरोना वायरस से सतर्कता से पांच स्वस्थ महत्वपूर्ण उपाय

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

Social Distancing is the key to break the chain of transmission of virus

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

कोरोना बुलन्दा है... मगर जाने का नहीं सावधानी हरी धुलना घटी...

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

सतर्क रहने की जरूरत है सुपर हीरो बनिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें कोरोना वायरस को फैलने से रोकें

अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर सहायता लें
 हेल्पलाइन नंबर: +91-11-2379864 (दैनिक) और +91-141-2228600 (राजस्थान)

आप कहेंगे... इन्फो लो

कोरोना वायरस से खुद बाहर मैदान में जानकर नहीं

कोरोना के संक्रमण से बचपा

अब तो संडे का और हफ्ते में एक भी पता ही नहीं चलता

आप पर कब तक ये केयर दे लेंगे? अब तो संडे ही सब की आँसू का जलकण है। संडे का दिन भी अब तो 'संडे' का दिन है।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

घर पर अपना काया रक्षक बनाओ

आपका घर ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

अपनी देखभाल कैसे करें?

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

घर पर अपने से उबर जाओ और कुछ जल्दी सज्ज हो जाओ

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

खुब की और दूसरों को कोरोना वायरस COVID-19 से बचाव

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

नियमित कोरोना वायरस (COVID-19) सामाजिक दूरी बनाएं

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

किराया/दवा/आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए घर पर सज्ज हो जाओ

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

दूसरों को संक्रमित होने से बचाव

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

I SUPPORT LOCKDOWN

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

सामुदायिक सफाई से स्वयं को बचाने का टिप में क्या कर सकते हैं?

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

दूसरों को संक्रमित होने से बचाव

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

सलाह आपके जटिल और होसले के

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

यकीन मानिए, मैं सबको एक नजर से देखता हूँ। मुझसे सभी को बचना होगा

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

वर्षा हंड सेल्फिटेडर सावधान से होकर विकल्प दें

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे

कोरोना की दवाई घर पर रहें

आपकी देखभाल करने के लिए आपको अपने घर पर अपना काया रक्षक बनाओ।

COVID-19 को रोकने के लिए सज्ज हो जाओ।
 अधिक जानकारी के लिए rajawasthya.nic.in पर संपर्क करें।
 #राजस्थान_संस्कृत_हे